



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1081 राँची, शुक्रवार,

7 दिसम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

6 नवम्बर, 2018

आदेश संख्या-5/ आरोप-1-141/2014 का-8329-- श्री राम नारायण राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-563/03) को देवघर के चर्चित भूमि घोटाले में सी०बी०आई० के विशेष कोर्ट में दिनांक 15 जनवरी, 2018 को सरेंडर करने के उपरांत उन्हें कोर्ट के आदेश से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-151(HRMS), दिनांक 16 फरवरी, 2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 15 जनवरी, 2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

2. श्री राम द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् दिनांक 22 मार्च, 2018 को पूर्वाहन में विभाग में योगदान समर्पित किया गया ।

3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद विभाग में योगदान दिये जाने की तिथि 22 मार्च, 2018 के प्रभाव से विभागीय आदेश सं०-8292, दिनांक 5 नवम्बर, 2018 द्वारा इन्हें पुनः

निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया।

4. अतः मामले की समीक्षोपरांत, श्री राम नारायण राम, झा०प्र०से०, सम्प्रति- निलंबित, मुख्यालय-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है ।

5. इनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में इनके विरुद्ध दर्ज वाद में पारित न्यायादेश के आलोक में अलग से निर्णय लिया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
